

योजना 2050 लंबी दूरी के परिवहन योजना गिफ्ट कार्ड की निःशुल्क प्राप्ति संबंधी आधिकारिक नियम



अपनी पसंद के किसी स्थानीय कारोबार को \$50 गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका देने के लिए नॉर्थ जर्सी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ऑथोरिटी (NJTPA) के साथ परिवहन, लोगों और अवसर के बारे में अपना फीडबैक साझा करें।

कोई खरीद आवश्यक नहीं है। निःशुल्क प्राप्ति में प्रवेश करने के लिए, आपको (1) योजना 2050 सर्वेक्षण अवश्य पूरा करना चाहिए या (2) योजना 2050 वर्कशॉप (कार्यशाला) में भाग लेना चाहिए। जिस सर्वेक्षण में प्रवेश करना है उसके अंत में आपको अपना ईमेल पता अवश्य प्रविष्ट करना चाहिए। यदि आप इन दोनों चरणों में से किसी भी एक चरण को पूरा करते हैं, तो आपको अपनी पसंद के स्थानीय व्यवसाय के लिए पाँच \$50 गिफ्ट कार्ड्स में से एक के वास्ते एक बेतरतीब ढंग से की जाने वाली ड्रॉइंग में प्रवेश दिया जाएगा; दोनों चरणों को पूरा करें, और आपको ड्रॉइंग में दो बार तक प्रवेश दिया जाएगा।

पात्रता:

ऐसा कोई भी जो तेरह-काउंटी नॉर्थ जर्सी क्षेत्र में निवास करता है, काम करता है, या स्कूल में अध्ययन करता है, भाग लेने के लिए पात्र है। काउंटियों में शामिल हैं:

- बर्गन काउंटी
- एसेक्स काउंटी
- हडसन काउंटी
- हंटरडन काउंटी
- मिडिलसेक्स काउंटी
- मॉनमाउथ काउंटी
- मॉरिस काउंटी
- ओशियन काउंटी
- पैसेइक काउंटी
- सोमरसेट काउंटी
- ससेक्स काउंटी
- यूनियन काउंटी
- वारेन काउंटी

NJTPA के कर्मचारी, बोर्ड के सदस्य (नियुक्त किए गए, वैकल्पिक, और उप-क्षेत्रीय कर्मचारीगण), और उनके करीबी पारिवारिक सदस्य गिफ्ट कार्ड्स में से एक को जीतने के लिए पात्र नहीं हैं।

तिथियाँ:

फॉर्नि टयाँ सितंबर 14, 2020 से लेकर फरवरी 15, 2021 को अपराह्न 11:59 बजे पूर्वी मानक समय केअनुसार स्वीकार की जाएँगी।

पुरस्कार:

प्राप्तकर्ता की पसंद केस्थानीय व्यवसाय केलिए, पाँच (5) गिफ़्ट कार्ड्स, प्रत्येक की कीमत \$50। पाँच प्रतिभागियों में से हरेक को एक (1) गिफ़्ट कार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा।

विजेताओं का चयन और अधिसूचना:

पाँच विजेताओं को बेतरतीब ढंग से चयनित किया जाएगा और फरवरी 19, 2021 को ईमेल के जरिये अधिसूचित किया जाएगा। योजना 2050 सर्वेक्षण को स्वीकार करने केबाद प्रतियोगियों को किसी ऑनलाइन वर्कशॉप में अवश्य भाग लेना चाहिए या अपना ईमेल पता दर्ज करवाना चाहिए। NJTPA पाँच विजेताओं से उनके पसंदीदा स्थानीय व्यवसाय का निर्धारण करने के लिए संपर्क करेगा। छोटे स्थानीय व्यवसायियों (व्यवसायों) का समर्थन करने केलिए, हम विजेताओं को एक ही मालिक केअधीन पाँच या उससे कम स्थानों वाले किसी स्थानीय नॉर्थ जर्सी कारोबार को चुनने केलिए प्रोत्साहित करते हैं। विजेता उपहार कार्ड मूल्य के बराबर नक़दी अपने नाम से किसी स्थानीय फूड पेंट्री को दान करने के विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। यदि विजेता 5 दिनों के अंदर अधिसूचना ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, तो NJTPA किसी वैकल्पिक विजेता का चयन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

विजेताओं के नाम योजना 2050 वेबपेज njtpa.org/Plan2050 पर पोस्ट किए जाएँगे।

निःशुल्क प्राप्ति केप्रायोजक:

पुरस्कार Mercer Planning Associates, 344 Grove Street, Suite 256, Jersey City, NJ 07302 द्वारा अनुदान केरूप में दिए जाते हैं।

प्रश्न:

North Jersey Transportation Planning Authority

One Newark Center

17th Floor

Newark, NJ 07102

फ़ोन: 973-639-8400

ईमेल: plan2050@njtpa.org